



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17072025-264764
CG-MH-E-17072025-264764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2813]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947

No. 2813]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जून, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2880(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के धुलेजिले में "बोरवहिर (धुले)- नरडाणा नई रेलवे लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

और, पिंप्री और सावळदे गाँव में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूपसे निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में विशेष रेल परियोजना बोरवहिर (धुले)- नरडाणानई रेलवे लाईन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

गांव का नाम:-मौजे – पिंपरीता.जि.धुले (एस.आर.क्र.14/2021)

अ.क्र.	गट नं.	20 (E) अनुसार प्रसिद्ध क्षेत्र (हे.आर)	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	गाटा उप-गाटा निहाय दर्शाया गया क्षेत्र (हे.आर)		अंतिम निवाड्यात संपादित/घोषित किया गया (हे.आर)		बड़ा हुआ क्षेत्र (हे.आर)	गाटा उप-गाटा निहाय आवश्यक प्रस्ताव (हे.आर)	
				गट	क्षेत्र	गट	क्षेत्र		गट	क्षेत्र
1	86 पै	0.05	रघुनाथ भिवसन चौधरी, आत्माराम भिवसन चौधरी	86 पै	0.05	86 पै	0.05	0.45	86 पै	0.45
				कुल				0.45 हे.आर		0.45 हे.आर

गांव का नाम:- मौजे – सावळदेता.जि.धुले (एस.आर.क्र. 06/2019)

अ.क्र.	गट नं.	20 (E) अनुसार प्रसिद्ध क्षेत्र (हे.आर)	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	गाटा उप-गाटा निहाय दर्शाया गया क्षेत्र (हे.आर)		अंतिम निवाड्यात संपादित/घोषित किया गया (हे.आर)		बड़ा हुआ क्षेत्र (हे.आर)	गाटा उप-गाटा निहाय आवश्यक प्रस्ताव (हे.आर)	
				गट	क्षेत्र	गट	क्षेत्र		गट	क्षेत्र
1	73 पै	0.29	हिरामण गणपत अहिरे, निर्मलाबाई तुळशिराम	73/1	0.29	73/1	0.29	0.08	73/1	0.08
				कुल				0.08		0.08 हे.आर
				कुल योग						0.53 हे.आर

फा. सं. G197/Dhule-Nardana/June/Addendum-2 Vilgs/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th June, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2880(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Dhule (Borvihar)-Nardana New BG Line** in **Dhule District** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, in **Pimpri & Savalde** villages no objections were received and the competent Authority have passed the orders accordingly;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project **Dhule District in connection with Dhule (Borvihar)-Nardana New Railway BG line** in the state of Maharashtra.

Village: Pimpri Tal. Dhule (S. R. No. 14/2021)

S.N.	Gutt No.	Area published in Section 20E (Ha.)	Land Owners Name as per 7/12 Extracts	Sub-Gutts Shown (Ha.)		Final Award Declared (Ha.)		Increased Area (Ha.)	Proposals required for Sub-Gutts (Ha.)	
				Gutt No.	Area	Gutt No.	Area		Gutt No.	Area
1	86 पै	0.05	Raghunath Bhivsan Chaudhari, Aatmaram Bhivsan Chaudhari	86 पै	0.05	86 पै	0.05	0.45	86 पै	0.45
			Total					0.45 (Ha.)		0.45 (Ha.)

Village: Savalde Tal. Dhule (S.R.No. 06/2019)

S.N.	Gatt No.	Area published in Section 20E (Ha.)	Land Owners Name as per 7/12 Extracts	Sub-Gutts Shown (Ha.)		Final Award Declared (Ha.)		Increased Area (Ha.)	Proposals required for Sub-Gutts (Ha.)	
				Gatt No.	Area	Gatt No.	Area		Gatt No.	Area
1	73१	0.29	Hiraman Ganpat Ahire, Nirmalabai Tulshiram	73/1	0.29	73/1	0.29	0.08	73/1	0.08
			Total					0.08 (Ha.)		0.08 (Ha.)
			Grand Total							0.53 (Ha.)

[F. No. G197/Dhule-Nardana/June/Addendum-2 Vilgs/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Cons.)